



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-02.09.2022

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा अपहरण के प्रयास में वांछित अभियुक्त राजन खरवार घटना में प्रयुक्त गाड़ी के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0-0252/2022 धारा 365/511/420 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त राजन खरवार पुत्र विरेन्द्र खरवार नि0-भरुहिया थाना बबुरी जिला चन्दौली हालपता नियर छोटा पार्क अशोक बिहार फेस 2 सारनाथ को दौलतपुर पोखरा के पास से आज दिनांक-02.09.2022 को समय प्रातः 04.25 बजे घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

दिनांक-22.08.2022 को वादी मुकदमा श्री दयाशंकर सिंह यादव निवासी शंकरपुरम कालोनी सोएपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी ने उनके बेटे देवांश को स्कूल से लौटते समय तीन अज्ञात लोगों द्वारा गाड़ी में जबरदस्ती पकड़ कर बिठाने का प्रयास करने व स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने पर छोड़ कर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-0252/2022 धारा 365/511 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मनीष पाल द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजन खरवार पुत्र विरेन्द्र खरवार नि0-भरुहिया थाना बबुरी जिला चन्दौली हालपता नियर छोटा पार्क अशोक बिहार फेस 2 सारनाथ, उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद फोर व्हीलर अर्टिगा गाड़ी नम्बर UP 70 DD 7743, 450 रुपये नगद एवं एक अदद मोबाइल रेडमी नोट 9 प्रो बरामद ।

विवरण पृच्छताछ- दिनांक-17.08.22 को शंकरपुरम कालोनी में देवांश सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह यादव के अपहरण के प्रयास के सम्बन्ध में अभियुक्त राजन खरवार ने बताया कि उस दिन इसी गाड़ी से मैं, उपेन्द्र कुमार पुत्र अच्छेलाल नि0 नकखीघाट थाना सारनाथ व उपेन्द्र का एक अज्ञात मित्र हम तीनों लोग मिल कर देवांश सिंह को अगवा करने का प्रयास किये थे किन्तु सफल नहीं हो पाए थे । उसी दिन से न तो मैं निकल रहा था न ही गाड़ी निकाल रहा था, जिससे बहुत उबन सी हो रही थी और नींद न आने की वजह से मूड फ्रेश

करने व चाय पीने के लिए रिंग रोड की तरफ आज आया था और वापस घर जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
- 2.उ0नि0 मनीष पाल चौकी प्रभारी जिला जेल/क्राइम टीम थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
- 3.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार मौर्या थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
- 4.का0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
- 5.का0 चन्द्रेश कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
- 6.का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट

वाराणसी

